

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 20 जनवरी 2020 : देश में पुलिस संचार समन्वय का एक नोडल परामर्शदात्री निकाय समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डीसीपीडब्ल्यू) ने विज्ञान भवन में आज दो दिवसीय 'जन सुरक्षा और आपदा राहत के प्रमुखों का सम्मेलन 2020' का शुभारंभ किया जिसका उद्घाटन माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय द्वारा किया गया ।

इस सम्मेलन में, देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुख सहित आपदा राहत से जुड़े एजेंसियों के प्रमुखों ने भाग लिया । इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने कहा कि समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा किया गया यह प्रयास देश में संचार व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष रूप से हमारे जवानों के लिए आहम साबित होगा ।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के पोलनेट 2.0 का उद्घाटन करते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पोलनेट 2.0 के परिचालन से सीसीटीएनएस की मजबूती बढ़ेगी तथा देश में आपराधिक प्रवृत्तियों सहित आपदा के दौरान वास्तविक और सटीक जानकारी प्राप्त करना काफी सुगम हो जाएगा । इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गृह राज्य मंत्री ने संपर्क स्थापित कर इस संचार नेटवर्क गुणवत्ता की जांच करते हुए उन्होंने कहा कि यह उल्लेखनीय कार्य हमारे जवानों को अपने दूरदराज क्षेत्रों में तैनाती के दौरान भी अपने परिवारजनों से निरंतर संपर्क में रहने की सुविधा प्रदान करेगा । पोल नेट के उन्नत वर्जन को अपनाए जाने तथा देश के विभिन्न पुलिस महकमे में इसे स्थापित किए जाने पर समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के निदेशक श्री आनंद स्वरूप को इस कार्य के लिए बधाई देते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के निदेशक तथा इस कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं ।

मंत्री जी ने कहा की, आज का यह सम्मलेन बहुत महत्वपूर्ण है, जो की आपदा संगठनों एवं पुलिस संचार को मजबूत करने के लिए बहुत उपयोगी होगा । उन्होंने आगे कहा की यह संचार सुविधा NDRF के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगी । मंत्री जी ने यह भी कहा की आधुनिक पुलिस संचार प्रणाली हमारी सीमा सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी ।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए गृह सचिव तथा अपर सचिव (पुलिस आधुनिकीकरण) ने समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा किए गए इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि पोलनेट 2.0 के सफल संचालन से ना सिर्फ आपदा राहत प्रबंधन में मदद मिलेगी बल्कि देश में आपराधिक प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम मील का पथर साबित होगा ।

इस दौरान निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय संचार मानक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया । यह मानक देश का यह पहला प्रयास है, जिसमें संपूर्ण देश के लिए एक राष्ट्रीय संचार मानक तैयार किया गया है ताकि विभिन्न राज्यों में पुलिस बलों सहित आपदा राहत एजेंसियों में उपयोग किए जा रहे संचार उपकरणों में एकरूपता बनी रहे तथा संचार की दिशा में नई उपलब्ध प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए स्वदेशी उपकरणों को अधिक से अधिक अपनाया जा सके ।

अंत में मंत्री जी ने सबको धन्यवाद दिया ।